



दैनिक भास्कर

बुधवार, 16 जुलाई 2025 लखनऊ

13

सारसुर्खियां

लिक्विड ईटीएफ में निवेश से पहले जानने योग्य जरूरी बातें

भारतीय निवेशकों के बीच नकदी के सुरक्षित और फायदेमंद तरीके से निवेश करने के साधन के रूप में लिक्विड ईटीएफ का चलन बढ़ रहा है। ऐसे में बाजार में पेश होने वाले नए उत्पादों तथा प्रतिस्पर्धा में भी बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे फंड का उद्देश्य है ओवरनाइट दरों (बैंकों द्वारा एक-दूसरे को एक दिन के लिए दिए जाने वाले ऋण की दर) के अनुरूप रिटर्न प्रदान करना, इसलिए ये अपनी तरलता, सुरक्षा और कर लाभों के कारण खुदरा और संस्थागत दोनों किस्म के निवेशकों के बीच लोकप्रिय हो गए हैं। हालांकि सभी लिक्विड ईटीएफ एक जैसे नहीं हैं लेकिन हाल में लॉन्च हुए नए और बेहतर ढांचे वाले फंड्स पर ध्यान देना जरूरी है। भारत में परंपरागत रूप से, लिक्विड ईटीएफ दैनिक लाभांश मॉडल का अनुसरण करते थे, जिससे प्रदर्शन की ट्रैकिंग प्रक्रिया जटिल हो जाती थी और दैनिक आधार पर टीडीएस कटौती होती थी जिससे चक्रवृद्धि (कम्पाउन्डिंग) रिटर्न प्रभावित होता था। एक नया विकल्प है, ग्रोथ एनएवी ढांचा, जो एनएवी के भीतर ही रिटर्न जमा करता है और इससे खास तौर पर अल्पकालिक निवेशकों के लिए आसान ट्रैकिंग तथा बेहतर कर-पश्चात दक्षता सुनिश्चित होती है। ऐसा ही एक नया फंड एंजेल वन निफ्टी 1डी रेट लिक्विड ईटीएफ - ग्रोथ है, जो इसी ग्रोथ एनएवी मॉडल का अनुसरण करता है और एनएसई में सूचीबद्ध है। बाजार पर्यवेक्षकों का कहना है कि यह फंड अन्य के मुकाबले कमतर कुल व्यय अनुपात (टीईआर) 0.27% (30 जून, 2025 तक) के साथ उपलब्ध है और इस तरह यह इस क्षेत्र में अधिक किफायती विकल्पों में से एक है। इसके विपरीत, पुराने उत्पाद अभी भी 0.40-0.70% के करीब टीईआर के साथ काम करते हैं, जिससे लंबे समय में कम जोखिम वाले निवेश के रिटर्न भी प्रभावित हो सकते हैं। ट्रेडिंग दक्षता की लिक्विड ईटीएफ के प्रदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कुछ ईटीएफ ₹100 के अंकित मूल्य पर काम करते हैं, लेकिन एंजेल वन निफ्टी 1डी रेट लिक्विड ईटीएफ - ग्रोथ ₹1,000 के अंकित मूल्य का उपयोग करता है, जिसमें ₹0.01 के सीमित मूल्य अंतर का उपयोग होता है। इसके परिणामस्वरूप प्रभाव लागत कम होती है, जो ज्यादा ट्रेड करने वाले उपयोगकर्ताओं या संस्थानों के लिए उपयुक्त है। जून 2025 में हाल ही में 6-दिवसीय विंडो में, एंजेल वन निफ्टी 1डी रेट लिक्विड ईटीएफ - ग्रोथ ने वार्षिक रिटर्न दिया है जो 100 रुपये के अंकित मूल्य वाले अन्य ग्रोथ एनएवी आधारित ईटीएफ की तुलना में 80-90 आधार अंक अधिक था। हर निवेशक की जरूरतें अलग होती हैं, लेकिन जिन्हें पारदर्शिता, सरलता और कम लागत की तलाश है, उनके लिए नई पीढ़ी के लिक्विड ईटीएफ बेहतर विकल्प हो सकते हैं, जिसमें थोड़े-बहुत बदलाव से बेहतर रिटर्न मिल सकते हैं।